

प्रबंधक/The Manager बीएसई लिमिटेड/BSE Limited, फ़ीरोज जीजीभोय टावर्स/Phiroj Jeejeebhoy Towers, दलाल स्ट्रीट/Dalal Street, मुम्बई/MUMBAI- 400 001 स्क्रिप कोड/Scrp Code: 532234	प्रबंधक/The Manager अनुसूचन विभाग/Listing Department नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., National Stock Exchange of India Ltd., एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कम्प्लेक्स, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, बांद्रा ईस्ट/Bandra East, मुम्बई/MUMBAI-400 051 प्रतीक/Symbol: NATIONALUM
--	---

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/ महोदय,

In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find a press release on “**NALCO Net profit rises 137% over previous quarter; Registers Rs.488 crores in Q3 of FY24**”.

The aforesaid information is also disclosed on the website of the company at [www.nalcoindia.com](http://www.nalcoindia.com).

You are requested to please take a note and disseminate the same in your Exchange.

Thanking you/ धन्यवाद

भवदीय/Yours faithfully,  
कृते नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड  
For National Aluminium Co. Ltd.

(एन.के. महान्ति)  
(N. K. Mohanty)  
समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी  
GGM & Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above/संलग्न

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
निगम कार्यालय  
नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 013 भारत

National Aluminium Company Limited  
(A Government of India Enterprise)  
REGD. & CORPORATE OFFICE  
Nalco Bhawan, Nayapalli, Bhubaneswar-751013,India

CIN # L27203OR1981GOI000920

Tel.:0674-2301988-999, Ext.:2265, 2266, 2267, 2585, 2587, E-mail:company\_secretary@nalcoindia.co.in,Website:www.nalcoindia.com

=====

**PRESS RELEASE**

**NALCO Net profit rises 137% over previous quarter; Registers Rs.488 crores in Q3 of FY24**

**Bhubaneswar, 13.02.2024:** National Aluminium Company Limited (NALCO), the Navratna PSU, under Ministry of Mines, Govt. of India and country's leading manufacturer and exporter of alumina and aluminium, has registered a net profit of Rs. 488 crores for the 3<sup>rd</sup> quarter ended December 2023.

According to the reviewed financial results for the 3rd quarter of the FY 24, taken on record by the Board in the meeting held at Bhubaneswar today, NALCO has registered a significant increase of 137 % over the previous quarter of current fiscal, which was Rs.206 crore.

The net profit for the nine months ended December 2023 stood at Rs.1044 crore as against Rs.1023 crore in corresponding period of last year. The total income in Q3 of FY24 was Rs.3398 crores compared to Rs.3358 crores in Q3 of FY23.

On production front, NALCO has achieved strong growth with highest ever cumulative metal production of 3,45,086 MT. Similarly, on sales front, the company has also achieved highest ever cumulative metal sale of 3,49,419 MT, during the first nine months of the current fiscal.

NALCO has also announced 2<sup>nd</sup> interim dividend @ Rs.2 per share for the financial year 2023-24.

\*\*\*\*